



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 208) पटना, सोमवार, 29 मार्च 2010

गृह विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2010

एस0ओ0 65, दिनांक 29 मार्च 2010—गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0 9362, दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा बिहार—राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (संख्या 60,152) की धारा—3 (1) के अधीन दिनांक 18 अगस्त 2008 को कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेश बालिया, सेवा—निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 9 मार्च 2010 तक थी।

आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया।

बिहार—राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा—3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल इस शर्त के साथ दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित किया जाता है कि आयोग द्वारा इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाएगा।

(सं0 06/प्र0 स0 को0/2008—4154)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

भगत चौधरी,

सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 208-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>